

Date: 15.08.2023

Corporate Relations Department BSE Limited 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P J Tower Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001	Corporate Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C-1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051.
---	--

Sub: NEWSPAPER ADVERTISEMENT FOR INFORMATION REGARDING 26TH ANNUAL GENERAL MEETING.

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code: BSE Code: 541700, NSE Code: TCNSBRANDS

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, the copies of newspaper advertisement with respect to the information regarding 26th Annual General Meeting of the Company published in the following newspapers:

- 1. Business Standard-Hindi on 15th August, 2023.**
- 2. Business Standard-English on 15th August, 2023.**

This is for your information and record.

Thanking you,
For and on behalf of **TCNS Clothing Co. Limited**

Piyush Asija
Company Secretary and Compliance Officer
M. No: A21328

Date: 15.08.2023
Place: New Delhi



TCNS Clothing Co. Limited

119 & 127, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI-110030, INDIA
PH: 011-42193193, Fax: 011-42193194, E-mail: corporatecommunications@tcnsclothing.com, www.wforwoman.com, www.shopforaurelia.com
REGD. OFFICE: 119, W-HOUSE, NEELGAGAN TOWER, MANDI ROAD, SULTANPUR, MEHRAULI, NEW DELHI- 110030
CIN- L99999DL1997PLC090978



AVSL INDUSTRIES LIMITED
R/O: 1001, NDM-2, NSP, Pitampura, Delhi-110034 • CIN: L18101DL2003PLC121698,
PH.: +91-11-47561234 • E: AVSL_PVC@AVSL.CO.IN, W: WWW.AVSL.CO.IN

NOTICE OF THE 20TH ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE NOTICE

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM") of the AVSL Industries Limited is scheduled to be held on Friday, September 08, 2023 at 11:30 A.M at the registered office of the Company to transact the ordinary business and special business together with the annual report for the financial year 2022-23. The 20th Annual General Meeting will be held in compliance with the provisions of the Companies Act 2013 and rules made thereunder Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), collectively referred as "Circulars".

In Compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Financial Statements for the financial year 2022-23 along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the members whose email addresses registered with the Company's Depositories and the electronic and physical dispatch of Annual Report to members has been completed on August 14, 2023. The copy of the annual report is available on the Company's website. Notice is further given pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and accordance with the SEBI (LODR) Regulations requirements; the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Companies will remain closed from August 31, 2023 to September 09, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of AGM and in particular and instructions for joining AGM.

For and on behalf of
AVSL Industries Limited
Sd/-
Sanjay Bansal (Managing Director)

Date - 14/08/2023
Place - Delhi



PVC / WPC Boards, Doors And Chalkhat

लार्क ट्रेडिंग एंड फाईनेंस लिमिटेड

सीआईएन: L34102UP1987PLC009222
पंजीकृत कार्यालय: सी-273, सेक्टर-63, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301
फोन: 011-22159466, ईमेल: Larktradingfinance@gmail.com, वेबसाइट: www.larktrading.in
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(सेबी(एलओडीआर) विनियमवली, 2015 का विनियम 47(1)(बी))

विवरण	तिमाही समाप्त			
	30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
आय				
(i) प्रचालनों से	17.54	21.62	17.81	76.24
(ii) अन्य आय	-	0.21	-	0.21
कुल आय	17.54	21.83	17.81	76.45
अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विधि और / या असाधारण मदों के पूर्व)	4.50	19.73	(11.52)	14.50
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विधि और / या असाधारण मदों के पश्चात)	4.50	19.73	(11.52)	14.50
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विधि और / या असाधारण मदों के पश्चात)	4.50	15.98	(11.52)	8.72
अवधि के लिए कुल स्वयं आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल)	4.50	15.98	(11.52)	8.72
इतिमदी शेयर पूंजी	526.00	526.00	526.00	526.00
आरक्षित (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष को लेखापरीक्षित तुलनात्मक में दर्शाए अनुसार)	-	-	-	187.39
प्रति शेयर अर्जन (₹. 10/- प्रत्येक के) (वास्तु बंद प्रचालनों के लिए) -				
1. बेहतर	0.09	0.30	(0.22)	0.17
2. कम्यूटेड	0.09	0.30	(0.22)	0.17

नोट: उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट: www.msdl.in और कंपनी की वेबसाइट: www.larktrading.in पर भी उपलब्ध है।

हिले लार्क ट्रेडिंग एंड फाईनेंस लिमिटेड

हस्ता./-
(सुनिता तायन)

पूর্ণकालिक निदेशक

सीआईएन: 06598044

सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L24219DL2006PLC145092
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: जी-82, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015, दूरभाष: +91-11-42083083
वेबसाइट: <https://sircapaints.com/> ई-मेल: cs@sircapaints.com
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के निष्कर्ष

(आंकड़े लाख में ईपीएस अपेक्षा)

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादािक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादािक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,756.23	1,298.86	1,541.79	6,210.93
4.	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	1,290.32	948.59	1,167.49	4,611.08
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1,290.32	938.96	1,167.49	4,601.45
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44
7.	अन्य समता	22,362.11	23,812.23	20,942.24	23,812.23
8.	आय प्रति अंश (₹ 10/- प्रत्येक के)				
	1. मूल (आवर्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41
	2. तनुकृत (आवर्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41

(आंकड़े लाख में ईपीएस अपेक्षा)

क्र. सं.	विवरण	समेकित			
		समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30.06.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)	30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	7,443.32	6,939.54	6,256.50	27,259.34
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादािक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादािक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,755.97	1,298.65	1,541.66	6,210.37
4.	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और / या असाधारण मदों के बाद)	1,290.12	948.44	1,167.39	4,610.67
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	1,290.12	938.81	1,167.39	4,601.04
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	5,480.88	2,740.44	2,740.44	2,740.44
7.	अन्य समता	22,358.83	23,809.14	20,939.46	23,809.14
8.	आय प्रति अंश (₹ 10/- प्रत्येक के)				
	1. मूल (आवर्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41
	2. तनुकृत (आवर्षिकीकृत)	2.35	1.73	2.13	8.41

टिप्पणियाँ:

- उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप विवरण का एक निष्कर्ष है। स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण का पूर्ण प्रारूप परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.sircapaints.com) और स्टॉक एक्सचेंज (www.msdl.in) पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 14 अगस्त, 2023 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

कृते सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

हस्ता./-
संजय अग्रवाल

अध्यक्ष-सूक्ष्म-प्रबंध निदेशक

(सीआईएन: 01302479)

दिनांक: 14/08/2023

स्थान: दिल्ली

दि हार्ड-टेक गियर्स लिमिटेड

CIN: L29130HR1986PLC081555
पंजी. कार्यालय: प्लॉट नंबर 24-26, आईएमटी मानेरस, सेक्टर-7, गुरुग्राम-122050, हरियाणा
फोन: कार्यालय: मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुराज लोन्-1, सेक्टर-27, गुरुग्राम-122002, हरियाणा
कार्य: + 0124-4715100 Fax: + 0124-2806085
वेबसाइट: www.thehtechgears.com, ई-मेल: secretarial@thehtechgears.com

30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अनेकक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		
		30/06/2023 (अनेकक्षित)	31/03/2023 (अनेकक्षित)	30/06/2022 (अनेकक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय	2,665.91	11,771.55	2,938.67
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पहले)	122.93	339.42	61.49
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर से पहले (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	122.93	339.42	61.49
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद)	92.99	231.14	3.68
5.	तिमाही / वर्ष हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है]	111.76	260.64	43.13
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.68	187.68	187.68
7.	आस्तियों एवं देयताओं के विवरण के अनुसार अन्य इक्विटी (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु) -	4.95	12.32	0.20
	(क) मूल :	4.94	12.30	0.20
	(ख) तनुकृत :			

नोट्स :-

- उक्त अनेकक्षित समेकित वित्तीय परिणाम अनेकक्षित समिति द्वारा अगस्त 14, 2023 को आयोजित उसकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए थे और तदुपरांत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अगस्त 14, 2023 को सम्यन्त उसकी बैठक में अनुमोदित किए गए थे। कम्पनी के सांविधिक अनेकक्षकों द्वारा सीमित पुनरीक्षण किया गया है।
- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दर्शाए गए गजून 30, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारिकृत रूप है।
- 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msdl.in) पर उपलब्ध है।
- सेबी (एलओडीआर) विनियमवली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसार में, कम्पनी की मुख्य पृथक्कृत वित्तीय सूचना के विषय में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है:
 - समीक्षा अवधि के दौरान, दो पूर्णतया स्वाधिकृत स्ट्रेप डाउन सहायक कम्पनियों नामतः 2352352 ओन्टारियो इन्क. तथा 2504584 ओन्टारियो इन्क जून 15, 2023 की प्रभावी तिथि से "दि हार्ड-टेक गियर्स कनाडा इन्क. (कम्पनी की पूर्णतया स्वाधिकृत स्ट्रेप डाउन सहायक कम्पनी) के साथ समामेलित की जा चुकी है।

(₹. मिलियन में)

विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त
	30/06/2023 (अनेकक्षित)	31/03/2023 (अनेकक्षित)	30/06/2022 (अनेकक्षित)	30/06/2022 (अनेकक्षित)
परिचालन से आय और अन्य आय	1,830.31	7,906.05	1,953.88	170.55
कर पूर्व लाभ	135.90	693.95	107.65	170.55
कर पश्चात लाभ	103.06	503.40	108.55	170.55

कृते एवं हिले निदेशक मंडल

दि हार्ड-टेक गियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
पूणव कपूरिया

प्रबंध निदेशक

(DIN: 00006195)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : अगस्त 14, 2023



कंपीटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड

पंजी कार्या : कंपीटेंट हाउस, एफ-14, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
सीआईएन: L34102DL1985PLC020668, दूरभाष : 011-45700000
ईमेल : cs@competent-maruti.com, वेबसाइट : www.competent-maruti.com

30-06-2023 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30-06-2023 अलेखापरीक्षित	समाप्त तिमाही 30-06-2022 अलेखापरीक्षित	समाप्त वर्ष 31-03-2023 अलेखापरीक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय / राजस्व	47799.78	36242.66	173152.97
2.	अवधि हेतु निवल लाभ / हानि (कर तथा आपवादािक मदों से पूर्व)	784.06	632.03	3443.28
3.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / हानि (आपवादािक मदों से पूर्व)	576.21	472.03	2473.08
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ / हानि (आपवादािक मदों के उपरान्त)	576.21	472.03	2473.08
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	—	—	—
6.	समता अंश पूंजी	614.60	614.60	614.60
7.	आय प्रति अंश (₹ 10/- प्रत्येक के)			
	मूलमूल	9.38	7.68	40.24
	तरलीकृत	9.38	7.68	40.24

- टिप्पणियाँ:
- उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइनेट्रड त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.competent-maruti.com) पर उपलब्ध है।
 - उपरोक्त परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा बोर्ड द्वारा 14-08-2023 को आयोजित अपनी संबंधित बैठक में अनुमोदित किये गये हैं।
 - समस्त अवधियों के लिये प्रस्तुत वित्तीय परिणामों को कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के अंतर्गत अधिसूचितानुसार, आईएनडी एस, के अनुसार तैयार किया गया है।

कृते कंपीटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड

हस्ता./-
राज चोपड़ा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14-08-2023

DreamFolks

Your Airport Experience Amplified!

ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): L51909DL2008PLC177181
पंजीकृत कार्यालय: 22, डीडीए प्लेट्स पश्चिमी पार्क, शिवालय रोड, नई दिल्ली - 110001, दूरभाष: 0124-4037306
ई-मेल: investor.support@dreamfolks.in, वेबसाइट: www.dreamfolks.in

15वीं वार्षिक आम बैठक और रिपोर्ट ई-वोटिंग जानकारी सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्राधान्यों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र 14/2020 (दिनांक 8 अप्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांक 13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांक 5 मई, 2020) और नवीनतम 10/2022 (दिनांक 28 दिसम्बर, 2022), क्रमशः ("एमसीए परिपत्र") एवं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सं. बी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 (12 मई 2020), सं. बी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 (15 जनवरी, 2021), सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 (13 मई, 2022) और नवीनतम परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 (5 जनवरी, 2023) ("सेबी परिपत्र") के अनुपालन में आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए ड्रीमफोक्स सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 15वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुधवार, 6 सितम्बर, 2023 को प्रातः 11:30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त कथित एजीएम तथा सेबी परिपत्रों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीसी एवं ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भागीदारी के विस्तृत निर्देश शामिल हैं), उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुसरण में उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को भेजने का कार्य 14 अगस्त, 2023 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त डिस्पैच का कार्य पूरा करने के बाद सदस्यगण investor.support@dreamfolks.in पर विशेष अनुरोध भेजकर ऐसे सदस्यों की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की भी हकदार हैं। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट <https://www.dreamfolks.in/company-announcements> और बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होगी।

अ

ARIHANT ACADEMY LIMITED
 CIN: U80903MH2007PLC175500
 Regd. Office: Ground Floor, Triveni Sadan, Opp. Ambe Mata Temple
 Carter Road No. 3, Borivall (East) Mumbai MH 400066
 Email Id: investors@arihantacademy.com website:
arihantacademy.com

NOTICE OF THE 16 ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Thursday 07th day of September 2023 at 11:00 A.M. at Ground Floor, Triveni Sadan, Opp. Ambe Mata Temple Carter Road No. 3, Borivall (East) Mumbai MH 400066**, to transact the business as set out in the Notice of the AGM of Company. Pursuant to provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder, Regulation 36 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) and Secretarial Standard on General Meetings (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 have been sent through electronic mode via e-mails to those Members whose e-mail ids are registered with Depository Participant(s)/Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Company, and the physical copies to those Members whose email id are not registered with Depositories Participant(s) and RTA as on August 11, 2023 (**Cut-off date**). The dispatch of the Annual Reports was completed on August 14, 2023. The aforesaid documents are also hosted on the website of the Company viz. www.arihantacademy.com and website of the Stock Exchanges, that is, NSE Limited at www.nseindia.com.

Further the Company is listed on SME platform of NSE, as exempted from complying with e-voting requirements vide MCA Notification dated 19 March, 2015 by amendment in Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

Further the Company shall provide facility for voting by way of polling papers/ ballot papers at the AGM for the Members attending the meeting. Accordingly, members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being August 31, 2023, only shall be entitled to voting at the AGM.

Further, in case of any queries, you may write to Mr. Anil Suresh Kapasi, Managing Director at Ground Floor, Triveni Sadan, Opp. Ambe Mata Temple Carter Road No. 3, Borivall (East) Mumbai MH 400066 or send a request at investors@arihantacademy.com

**By order of the Board of Directors
 For Arhant Academy Limited**
 Sd/-
**Anil Suresh Kapasi
 Managing Director
 DIN: 03524165**

Mumbai
 14th August 2023

HCL INFOSYSTEMS LIMITED
 CIN: L72200DL1986PLC023955
 Regd. Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110 019
 Corporate Office: A-11, Sector -3, Noida, 201301 (U.P.)
 Tel: + 91-120-2520977, 2526518/519, Fax: +91 120 2523791
 Email: cosec@hcl.com, Website: www.hclinfosystems.in

NOTICE TO THE MEMBERS ON INFORMATION REGARDING 37th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of HCL Infosystems Limited ("the Company") will be held on **Wednesday, 20th September, 2023 at 10:00 A.M. through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM")** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time to time to transact the business set out in the Notice of the AGM.

In compliance with MCA and SEBI Circulars, the Notice of the 37th AGM together with Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to those members electronically whose e-mail addresses are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with their respective Depository Participant(s) (DPs). The Notice of 37th AGM and the Annual Report shall also be available on the Company's website www.hclinfosystems.in and stock exchange's website www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") www.evoting.nsdl.com. Necessary arrangements have been made by the Company with NSDL to facilitate remote e-voting and voting during the meeting.

Members holding Shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 37th AGM, Annual Report and the login details for joining the AGM through VC/ OAVM facility by sending a request to Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at info@alankit.com or contact Company Secretary of the Company at cosec@hcl.com by providing their name, folio no, scanned copy of share certificates (Front and Back), self-attested scanned copy of PAN card and Aadhar Card in support for registering their e-mail addresses.

Members holding Shares in dematerialised form are requested to register/update their e-mail IDs with their Depository Participant(s) (DPs).

The Company will provide remote e-voting facility and e-voting facility to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the notice of 37th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM shall be provided in the notice of 37th AGM.

Any person, who acquires shares and become member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 37th AGM and holding shares as on cut-off date i.e., Wednesday, September 13th, 2023 may obtain the Login ID and password by sending a request at info@alankit.com / cosec@hcl.com.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

The detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM, instructions for attending the AGM through VC/OAVM, etc. will be provided in the AGM Notice.

For and on behalf of
HCL Infosystems Limited
 Sd/-
**Komal Batlia
 Company Secretary and Compliance Officer**

Place: Noida
 Date: 14th August, 2023

KERALA WATER AUTHORITY
e-Tender Notice

Tender No: Ref/T No. 71&72/2023-24/SE/Q
 Rebuilding- RKI- WSS to Neduvathoor Panchayat and Kottarakkara Municipality- construction and commissioning of 9m dia intake well cum pump house, transformer room ramp, 18L.L. OHSR at Ugrankunnu and allied works.
 EMD: Rs. 1,00,000/-
 Tender fee: Rs. 8,270/- + 1,489/-
 Last Date for submitting Tender: 21.08.2023 02:00 pm
 Phone: 04742745293 Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in
 Superintending Engineer
 PH Circle, Kollam

KWA-JB-GL-6-1031-2023-24

Patel PATEL ENGINEERING LTD.
 CIN: L99999MH1949PLC007039 : Regd. Office: Patel Estate Road
 Jogeshwari (West) Mumbai - 400102 | Tel: +91 22 26767500
 Website: www.pateleng.com | email: investors@pateleng.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Friday, September 8, 2023 at 11.30 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) ONLY without the physical presence of the members at a common venue, to transact the businesses set out in the Notice of AGM in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with the Circulars issued by MCA and SEBI in this regard.

For the above purpose, the AGM Notice and the Annual Report for the FY 22-23 was dispatched electronically on August 14, 2023 to the e-mail addresses of the Shareholders who are registered with the Company/Depository Participant(s) as on August 11, 2023. The Notice of 74th AGM and Annual Report for FY 22-23 is also available on Company's website at www.pateleng.com and on National Securities Depository Limited (NSDL) website at www.evoting.nsdl.com. The Notice of the AGM may also be accessed from the websites of the stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com. The instructions for joining AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

E-voting Instructions:

- Shareholders will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) facility provided by NSDL, which is detailed in the Notice of the AGM.
- Voting rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the Members as on Friday, September 1, 2023 (Cut-off date).
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes the Member of the Company after dispatch of Notice of the AGM shall cast their vote by following the procedure as mentioned in the notice of the AGM.
- Remote e-voting commences at 9.00 a.m. (IST) on **Tuesday, September 5, 2023 and ends at 5.00 p.m. (IST) Thursday, September 7, 2023**. During this period, Members holding shares either in physical or demat form as on cut-off date may cast their votes electronically. The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Those shareholders who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during AGM. Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend / participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

The Company has appointed Mr. Omkar Dindorkar failing him Ms. Deepthi Kulkarni, Partners of MJB & Associates LLP, Company Secretaries as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting as well as e-voting in fair and transparent manner.

In case of any queries/issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at www.evoting.nsdl.com at "Download" section or call on the toll-free number: 022-4886 7000/022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mahatpe at evoting@nsdl.co.in or Ms. Shobha Shetty, Company Secretary, at investors@pateleng.com.

For Patel Engineering Ltd
Shobha Shetty (Company Secretary)
 Membership No.: F10047

Mumbai
 August 14, 2023

W aurelia WISHFUL eleven

TCNS CLOTHING CO. LIMITED
 CIN: L99999DL1997PLC090978
 Regd. Office: 119, W-House, New Mangalpur,
 Mandi Road, Sultapur, Mehrauli, New Delhi-110030.
 Corporate Office: 119 & 127, W-House, New Mangalpur, Mandi Road,
 Sultapur, Mehrauli, New Delhi-110030.
 Tel: 011-42193193, Email: investors@tcnsclothing.com, Website: www.wforwoman.com

INFORMATION REGARDING NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, EMAIL REGISTRATION AND E-VOTING

Members are requested to take note that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of TCNS Clothing Co. Limited ("the Company") is scheduled to be held on **Monday, September 11, 2023 at 11:30 A.M. (IST)**, through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

The AGM is being held through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder, read with General MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, MCA Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 MCA Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, MCA Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, MCA Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, MCA Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, MCA Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively "Applicable Circulars").

Dispatch of Notice and Annual Report: The e-copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 along with the Notice of the 26th AGM, Financial Statements and other Statutory Reports are being sent only in electronic form to those Members whose e-mail addresses are registered with their respective Depository Participant(s)/Registrar and Transfer Agents ("RTA") of the Company viz. KFin Technologies Limited ("KFin Tech"). The Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 along with the Notice of the 26th AGM including voting instructions will also be available on the website of the Company at <https://wforwoman.com/content/report/financial-information>, website of the Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed i.e., at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the KFin Tech at <https://evoting.kfintech.com> ("RTA" and "E-voting facility provider"). The Company shall send a physical/electronic copy (as requested) of the Annual Report to those Members who specifically request for the same at investors@tcnsclothing.com mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The detailed instructions with respect to such participation will be provided in the Notice convening the Meeting. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Electronic Voting and Participation at AGM: The Company has availed the services of KFin Tech for the purpose of obtaining facility for remote e-voting before the AGM and for Insta poll during the AGM. The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 08, 2023 at 09:00 A.M. (IST) and ends on Sunday, September 10, 2023 at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall thereafter be disabled for voting and subsequently enabled for Insta poll during the AGM. The manner of remote e-voting and Insta poll during the AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their e-mail addresses will be provided in the notice to the Members.

The Members are requested to refer the AGM Notice for instructions in respect of e-voting as well as attending the AGM through VC/OAVM.

Only Members, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as Monday, September 04, 2023 ("Cut-off date") shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before the AGM and Insta poll during the AGM. Any person who becomes the Member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on the Cut-off date may obtain the "USER ID" and "Password" by sending a request at umesh.pandey@kfintech.com or inward.ris@kfintech.com.

The detailed procedure for obtaining the "USER ID" and "Password" is also provided in the notice of AGM, which will be made available on the Company's website and KFin Tech's website mentioned above. If the Member is already registered with KFin Tech for e-voting, he can use his existing "USER ID" and "Password" for casting the vote through remote e-voting/Insta poll. The credentials for remote e-voting/Insta poll are to be used by the Member for attending the AGM through VC/OAVM.

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 on "e-voting facility provided by listed Companies", e-voting process has been enabled for all individual demat account holder, through their demat account by way of single login credentials, through their demat Accounts/website of Depositories/Depository Participant ("DP"), in order to increase the efficiency of the voting process. The links for the same are as follows:

Depository	Members Already Registered	Members Not Registered	Direct Access of Website for First-Time Users
NSDL	Go to URL https://eservices.nsdl.com and click on the "Beneficial Owner" icon under "DeAS" section.	To register click on link https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeaDirectReg.jsp	Visit URL: https://www.evoting.nsdl.com/
CDSL	Go to URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and then go to Login and select "New System Myeasi"	To register click on link https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration	Visit URL: https://www.cdslindia.com/

The Members who cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) on Insta poll again.

In case of any grievance related to non-registration of email id, for the purpose of attending AGM, e-voting, non-receipt of Notice, and Annual Report or for any further clarifications, you may contact the Company at investors@tcnsclothing.com or the RTA of the Company at inward.ris@kfintech.com / umesh.pandey@kfintech.com or call on Toll free Number: 18003904001.

Notice of the 26th AGM will be sent to the Members in accordance with applicable laws on their registered email addresses in due course.

**By order of the Board
 For TCNS Clothing Co. Limited**
 Sd/-
**Piyush Asija
 Company Secretary & Compliance Officer
 M. No. A21328**

Place: New Delhi
 Date: August 15, 2023

SAKSOFT SAKSOFT LIMITED
 Regd & Corp. Office: Global Infocity Park, 2nd Floor, Block - A, No 40 Dr MGR Salai, Kandanchavadi, Perungudi, Chennai - 600 096.
 Phone: +91-44-24543500, CIN: L72200TN1999PLC054429 | Email: investorqueries@saksoft.co.in | website: www.saksoft.com

Extract of Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2023

Particulars	(Rs. in Lakhs)			
	Quarter ended 30.06.2023	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 30.06.2022	Year ended 31.03.2023
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total Income	18,503.16	18,272.93	15,119.78	67,503.42
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary Items)	3,288.01	2,987.03	2,297.96	10,543.82
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	3,288.01	2,987.03	2,297.96	10,543.82
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary Items)	2,515.35	2,498.89	1,780.46	8,197.76
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	336.60	298.98	(383.40)	848.94
Equity Share Capital	1,004.12	1,003.65	1,000.65	1,003.65
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
(a) Basic (Rs.)	2.51	2.49	1.78	8.18
(b) Diluted (Rs.)	2.29	2.29	1.64	7.53
Notes:				
1. Key Standalone financial information				
Turnover	6,010.41	5,684.51	4,787.80	21,756.23
Profit/ (Loss) before tax	1,059.62	796.44	539.62	3,452.75
Profit/ (Loss) after tax	843.82	665.66	397.60	2,784.85
2. The above is an extract of the detailed format of the Financial results for the quarter ended June 30, 2023 filed with the Stock Exchanges on August 14, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's Website, www.saksoft.com and on the website of the Stock Exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com .				
3. Three Sixty Logica Testing Services Private Limited and Saksoft Inc, wholly owned subsidiaries of Saksoft Limited have acquired the entire shareholding of Solveda Software India Private Limited and Solveda LLC effective 11 August 2023, making these companies step down subsidiaries of Saksoft Limited				

For and on behalf of the Board of Directors
**Aditya Krishna
 Chairman & Managing Director**

Place: Chennai
 Date: August 14, 2023

AstraZeneca AstraZeneca Pharma India Limited
 CIN: L24231KA1979PLC003563
 Regd. Office : Block N1, 12th Floor, Manayata Embassy Business Park,
 Rachenahalli, Outer Ring Road, Bangalore 560 045
 Tel.: +91 80 6774 8000, Web: www.astrazeneca.com/india

Statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2023

Sl. No.	Particulars	Rs in lakhs except for earnings per share data		
		3 months ended 30/06/2023	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/06/2022	Year Ended 31/03/2023
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	30,357.05	23,644.62	1,02,907.26
2	Net profit/(loss) for the period from ordinary activities before tax	7,139.78	2,729.90	13,410.46
3	Net profit/(loss) for the period from ordinary activities after tax	5,386.07	2,015.26	9,929.25
4	Total comprehensive income for the period after tax	5,431.58	2,008.19	9,667.82
5	Equity Share Capital	500.00	500.00	500.00
6	Other Equity	-	-	58,368.83
7	Basic and diluted earnings per share (of Rs 2 each)	21.54	8.06	39.72

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and Company's website (www.astrazeneca.com/india).
- The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

**By Order of the Board of Directors
 For AstraZeneca Pharma India Limited**
**Sanjeev Kumar Panchal
 Managing Director**

Place: Bangalore
 Date: 14 August, 2023

BOROSIL[®] BOROSIL LIMITED
 CIN: L36100MH2010PLC292722
 Regd. Office : 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
 Tel.No. (022) 6740 6300 | Fax No. : (022) 6740 6514 Website : www.borosil.com | Email : borosil@borosil.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

Particulars	(₹ in Lakhs except as stated)					
	Standalone			Consolidated		
	Quarter ended (30/06/2023) (Unaudited)	Quarter ended (30/06/2022) (Unaudited)	Year ended (31/03/2023) (Audited)	Quarter ended (30/06/2023) (Unaudited)	Quarter ended (30/06/2022) (Unaudited)	Year ended (31/03/2023) (Audited)
Total income from operations	22,563.68	19,781.79	95,734.81	25,056.33	21,622.56	1,02,712.13
Net Profit for the period / year before Tax and Exceptional items	2,139.17	2,109.08	11,275.54	1,004.11	2,101.21	10,952.17
Net Profit for the period / year before Tax (After Exceptional items)	2,139.17	2,617.14	12,208.87	1,004.11	2,609.27	11,885.50
Net Profit for the period / year after Tax (After Exceptional items)	1,528.00	1,977.25	9,412.34	637.16	1,941.45	9,020.67
Total Comprehensive Income for the period / year (Comprising profit for the period / year (after tax) and other comprehensive income (after tax))#	1,523.73	1,972.83	9,400.16	635.09	1,939.25	9,017.27
Equity Share Capital	1,144.28	1,142.21	1,144.14	1,144.28	1,142.21	1,144.14
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)			85,665.17			85,215.87
Earning per equity share (in ₹) (Face value of ₹ 1/- each)						
Basic (Not Annualised)*	1.34*	1.73*	8.24	0.63*	1.69*	7.86
Diluted (Not Annualised)*	1.34*	1.73*	8.24	0.63*	1.69*	7.86

Total Comprehensive Income of Consolidated financial results includes share of Non-controlling interest.

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2023, filed with the Stock Exchanges on 14th August, 2023 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.borosil.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 14th August, 2023.

For Borosil Limited
**Rajesh Kumar Chaudhary
 Whole-time Director
 (DIN 07425111)**

Place : Mumbai
 Date : 14th August, 2023

Indiabulls Housing Finance Limited (CIN: L65922DL2005PLC136029)
Extract of Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

Sr.No.	Particulars	(Rupees in Crores)		
		Quarter ended 30.06.23 (Reviewed)	Year ended 31.03.23 (Audited)	Quarter ended 30.06.22 (Reviewed)
		(Reviewed)	(Audited)	(Reviewed)
1.	Total Income from Operations	1,900.38	8,719.28	2,075.21
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	396.23	1,603.85	385.79
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	396.23	1,603.85	385.79
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	294.39	1,129.69	286.64
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	197.17	1,140.25	541.55
6.	Equity Share Capital	89.72	89.72	89.72
7.	Earnings per Share (EPS) *(EPS for the quarters are not annualised) -Basic (Amount in Rs.) -Diluted (Amount in Rs.)	6.56 6.53	25.19 25.05	6.40 6.40

Notes:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee on August 14, 2023 and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on August 14, 2023.
- The financial results have been prepared in accordance with Ind AS, notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time, and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 and Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 as amended from time to time.

3. Key Standalone Financial Information:

Particulars	(Rupees in Crores)		
	Quarter ended 30.06.23 (Reviewed)	Year ended 31.03.23 (Audited)	Quarter ended 30.06.22 (Reviewed)
	(Reviewed)	(Audited)	(Reviewed)